



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38 ]

No. 38]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 23, 2003/माघ 3, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2003/MAGHA 3, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 51(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री जी. एम. कृष्णामूर्ति और (ii) श्री जे. एच. फ्रेडरिक अजू को क्रमशः मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी संघ एवं मद्रास पत्तन यूनाइटेड मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए चेन्नई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 26 जून, 2002, की सा.का.नि. सं. 454(अ) और दिनांक 29 मई, 2002 की सा.का.नि. सं. 385(अ) के साथ पठित दिनांक 1 मई, 2002 की सा.का.नि. सं. 315(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. (17) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

- |   |   |
|---|---|
| 18. श्री जी. एम. कृष्णामूर्ति<br>महा सचिव,<br>मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी संघ | पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए  |
| 19. श्री जे. एच. फ्रेडरिक अजू<br>महा सचिव,<br>मद्रास पत्तन यूनाइटेड मजदूर संघ | पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

[फ. सं. पीटी-18011/9/2001-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2003

G.S.R. 51(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (i) Shri G.M. Krishnamurthy, and

(ii) Shri J. H. Fredrick Ajoo, as trustees to represent Madras Port Trust Employees Union and Madras Port United Labour Union respectively on the Board of trustees for the Port of Chennai and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Ports Wing, G.S.R. No. 315(E) dated 1st May, 2002 read with G.S.R. No. 385 (E) dated 29th May, 2002 and G.S.R. No. 454(E) dated 26th June, 2002.

2. In the said notification after serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 18. | Shri G.M. Krishnamurthy,<br>General Secretary,<br>Madras Port Trust Employees Union | Representing Labour<br>employed in the Port  |
| 19. | Shri J. H. Fredrick Ajoo,<br>General Secretary,<br>Madras Port United Labour Union  | Representing Labour<br>employed in the Port. |

[F.No. PT-18011/9/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.